

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 584]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2024 — अश्विन 12, शक 1946

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-23/2002/1/6(7). — छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्र. 30 सन् 2002) की धारा 17 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 4 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ प्रमुख लोकायुक्त एवं लोकायुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 2008 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम 11 के प्रथम पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“देय पेंशन :- प्रमुख लोकायुक्त को, प्रमुख लोकायुक्त के रूप में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए, उस दर पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा, जो भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए प्रासंगिक विधि द्वारा विहित हो एवं उस पद के लिए स्वीकार्य हो, जिसका वेतन प्रमुख लोकायुक्त को अधिनियम की धारा 4 के अनुसार अंतिम बार प्रदाय किया गया है।”

- नियम 11 के प्रथम पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“जहाँ प्रमुख लोकायुक्त की सेवानिवृत्ति के पूर्व या पश्चात् मृत्यु हो जाती है, वहाँ उनके पात्र परिवार पेंशनर भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिये प्रासंगिक विधि द्वारा विहित उस दर पर संगणित कुटुंब पेंशन प्रदाय किया जायेगा, जो उस पद के लिए स्वीकार्य हो, जिस पद का वेतन प्रमुख लोकायुक्त को अधिनियम की धारा 4 के अनुसार अंतिम बार प्रदाय किया गया हो :

ये संशोधन, दिनांक 21 अगस्त, 2024 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

क्रमांक एफ 1-23/2002/1/6(7). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.एफ 1-23/2002/1/6(7) दिनांक 04-10-2024 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव

Atal Nagar, the 4th October 2024

NOTIFICATION

No. F 1-23/2002/1-6(7). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 17 read with sub-section (6) of Section 4 of the Chhattisgarh Lok Ayog Adhiniyam, 2002 (No.30 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Pramukh Lokayukta and Lokayukta (Conditions of Service) Rules, 2008, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

1. For first para of rule 11, the following para shall be substituted, namely:-

"Pension Payable.- The Pramukh Lokayukt shall be paid pension at the rates prescribed by the relevant law for a retired Judge of the Supreme Court of India or a retired Chief Justice or a retired Judge of a High Court and as would be admissible for such post salary of which was last paid to the Pramukh Lokayukta as per Section 4 of the Act, for each completed year of rendering services as Pramukh Lokayukta."

2. After first Para of rule 11, the following Para shall be inserted, namely:-

"Where the Pramukh Lokayukta dies, whether before or after retirement, his family pensioner entitled to receive the pension shall be paid family pension calculated at the rate, prescribed by relevant law for a retired Judge of Supreme court of India or a retired Chief Justice or a retired Judge of a High Court, as would be admissible for such post salary of which was last paid to the Pramukh Lokayukt as per Section 4 of the Act:"

These amendment shall come into force with retrospective effect from the date of 21st August, 2024.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MUKESH KUMAR BANSAL, Secretary.